

# देखभाल तथा अवसर के लिए योजना



## ओन्टारियो के सीनियरों (बजुर्गों) के लिए देखभाल

हमारे प्रांत में सीनियरों (बजुर्गों) की संख्या 2.4 मिलियन से बढ़कर 2040 तक 4.5 मिलियन हो जाने की उम्मीद है। सीनियरों की विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं और, कई उनके परिवारों के साथ, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण से संबंधित अतिरिक्त लागतों के साथ संघर्ष करते हैं।

सीनियरों को स्वस्थ, स्वतंत्र और सक्रिय जीवन जीने में मदद करने के लिए, ओन्टारियो घर और सामुदायिक देखभाल तक पहुंच को बढ़ रहा है, सीनियरों को स्वतंत्र रूप से रहने में समर्थन कर रहा है, प्रिसक्रिप्शन दवाओं को OHIP+ के माध्यम से 65 और उस से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए मुफ्त बना रहा है, और अस्पताल सेवाओं और लॉगटर्म देखभाल में निवेश करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।



### मुफ्त प्रिसक्रिप्शनें 65+

OHIP+ के माध्यम से 65 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रिसक्रिप्शन पूरी तरह से मुफ्त करके, यह सुनिश्चित करना कि किसी भी सीनियर नागरिक को कभी भी आवश्यक दवाओं के बिना ना रहना पड़े। ओन्टारियो ड्रग बेनिफिट वार्षिक कटौती और को-पे को समाप्त करने से, यह औसत ओन्टारियो सीनियर को प्रति वर्ष \$240 की बचत करता है।



### बेहतर लॉगटर्म देखभाल

उन लोगों की सहायता के लिए जो अब स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, अगले 10 वर्षों में 30,000 नए लॉगटर्म देखभाल बैडों का सृजन करना- और उन लोगों के लिए मन की शांति प्रदान करना जो उनकी परवाह करते हैं।



### सीनियरों का हैल्दी होम प्रोग्राम

यह नया कार्यक्रम बूढ़े सीनियर नागरिकों की घर पर रहने के साथ जुड़ी लागतों को पहचानता है, जहां वे रहना चाहते हैं। यह 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सीनियर नागरिकों द्वारा चलाए जाने वाले योग्य घरों को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए और अपने घरों को बनाए रखने की लागतों की भरपाई करने के लिए सलाना \$750 तक का लाभ प्रदान करता है।

## निःशुल्क प्रिसक्रिप्शन

ऑंटारियो:

- OHIP+ के माध्यम से प्रिसक्रिप्शन 65 वर्ष और उससे अधिक के लिए पूरी तरह से मुफ्त कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी सीनियर नागरिक को कभी भी आवश्यक दवाओं के बिना ना रहना पड़े। ओन्टारियो ड्रग बेनिफिट वार्षिक कटौती और को-पे को समाप्त करके, यह औसत ओन्टारियो सीनियर को प्रति वर्ष \$240 की बचत करता है। यह 2017 के ओन्टारियो बजट में 25 वर्ष से कम आयु के सभी के लिए मुफ्त प्रिसक्रिप्शन पेश करने के बाद है। इस विस्तार के साथ, अब तकरीबन हर दो ओन्टारियोनों में से एक में, लगभग 6.4 मिलियन लोगों, के लिए प्रिसक्रिप्शन दवाओं का सेवन मुक्त हो जाएगा।
- OHIP+ के माध्यम से 4,400 से ज्यादा प्रिसक्रिप्शन दवाओं को मुफ्त करना, जैसे कि उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप, थायरॉयड की स्थिति, मधुमेह और अस्थमा के लिए दवाएं।

## सीनियरज़ हैल्दी होम प्रोग्राम

ऑंटारियो:

- नए सीनियर हैल्दी होम प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रहा है। यह बूढ़े सीनियरों की घर पर रहने से जुड़ी लागतों को पहचानता है, जहां वे रहना चाहते हैं। यह 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सीनियर नागरिकों द्वारा चलाए जाने वाले योग्य घरों को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए और अपने घरों को बनाए रखने की लागतों की भरपाई करने के लिए सालाना \$750 तक का लाभ प्रदान करता है।
- सीनियरों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना जब बीमारी या कम गतिशीलता उनके घर को बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।
- कार्यक्रम के डिजाइन पर सीनियरों के समूहों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करना, इसमें कौन से विशेष प्रकार के व्यय योग्य होने चाहिए समेत।

## सीनियरों के लिए अधिक देखभाल

ऑंटारियो:

- अगले 10 वर्षों में 30,000 नए लॉन्गटर्म देखभाल बैड बनाने - 2022 तक 5,000 नए बैड जोड़कर - उन लोगों की मदद करने के लिए जो अब स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं और उन लोगों के लिए मन की शांति प्रदान करना जो उनकी परवाह करते हैं। यह नए बैड 30,000 मौजूदा पुनर्विकसित किए गए बैडों के आलावा हैं।

- हमारे अस्पतालों में सुधार करके देखभाल के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करके, प्रतीक्षा के समय को कम करना और 2018-19 में अतिरिक्त \$822 मिलियन निवेश के माध्यम से क्षमता के मुद्दों को संबोधित करना - लगभग एक दशक में अस्पतालों में सबसे बड़ा एकल सरकारी निवेश। प्रांत लोगों के लिए अधिक और तेजी से स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अस्पतालों का निर्माण और पुनर्निर्मित करने के लिए अगले 10 सालों में \$19 बिलियन डॉलर से भी अधिक का निवेश कर रहा है।
- दैनिक देखभाल की मात्रा बढ़ाना, प्रत्येक व्यक्ति को लॉन्गटर्म देखभाल घरों में औसत चार घंटे की देखभाल प्राप्त होती है।
- डिमेंशिया की नई तशखीस किए गए 14,000 लोगों की देखभाल में सुधार, चाहे वे कहीं भी रहते हों।
- घर और सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक अधिक पहुंच प्रदान करना, जिनमें शामिल है निजी सहायता के 2.8 मिलियन और घंटे और 284,000 अधिक नर्सिंग भेंटें, तीन वर्षों में \$ 650 मिलियन निवेश के माध्यम से।

## सीनियरों को स्वस्थ, सक्रिय जीवन जीने में मदद करना

### ऑंटारियो:

- सरकारी सेवाओं तक सीनियरों की पहुँच को आसान बनाना, जिस में शामिल है एक नई वन-स्टॉप वेबसाइट और 150 से अधिक भाषाओं में 24-घंटे की फोन सेवा।
- पूरे प्रांत में सीनियरों के एक्टिव लिविंग केंद्रों के नेटवर्क का समर्थन और विस्तार करके सीनियर नागरिकों को सक्रिय रहने और उनके समुदायों से जुड़े रहने में सहायता करना।
- 200 नई सब्सिडीयां प्रदान करके सीनियर नागरिकों को किफायती आवास किराए पर लेने के लिए और घर और सामुदायिक देखभाल के लिए सक्षम बनाना।
- सामुदायिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच के साथ सीनियरों के दुर्व्यवहार का जवाब देना और सार्वजनिक शिक्षा और सेवा प्रदाता के वितरण का समर्थन करना जारी रखना।